

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय बिश्रामपुर जिला-सूरजपुर(छ0ग0)

College Code – 3503 Telephone No.07775296086

E-mail Id – gcbishrampur2016@gmail.com


Web Site - www.govtcollegebshampur.ac.in


Implementation of guidelines of statutory/regulatory bodies

Govt. College Bishrampur adheres following guidelines of statutory/regulatory bodies for timely redressal of student grievances including sexual harassment and ragging cases:

- (A) The Code of Conduct for student to maintain the highest standards of discipline and dignified manner of behavior inside and outside the College campus. It's displayed on the college notice board
- (B) The possible cases of women sexual harassment inside the campus are redressed according to the rule of "Handbook on Sexual Harassment of Women at Workplace Act 2015". Besides this, the girl students can register a complaint regarding sexual harassment in Ministry of Women & Child Development website.
- (C) The possible cases of ragging in collage are redressed according to the rule of "UGC Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institution, 2009"




Principal
Govt. College Bishrampur
Distt.-Surajpur(C.G.)


12/11/20

Policies & Mechanism for Zero Tolerance

Govt. College Bishrampur has a transparent policy and mechanism for timely redressal of student grievances including sexual harassment and ragging cases. The College students could submit their grievance through offline/online mode as well as from grievance box of the campus. All issues of the student grievances are redressed by the Grievance Redressal Committee of the College.

A. Maintenance of Discipline among Students of the College

POLICY:-

The College has well constituted Students' Grievance Redressal cell, Carrying powers to enforce discipline and taking disciplinary action in the interest of maintaining discipline, as may seem to be appropriate. The Committee also gives instructions to students against causing disruption in any manner of the academic functioning and property of the College.

MECHANISM:-

Bishrampur College celebrates National/International Commemorative Days, Festivals and Memories of the great freedom fighters, to instill patriotic spirit and to foster unity among students and faculty. The College organizes activities that deepen the values, rights, duties and responsibilities of good citizens committed to nation and society. The NSS and YRC are two integral bodies that commit activities to inculcate patriotism among students.

B. Prohibition for Sexual Harassment of Women at College

POLICY:-

The College has a well constituted Women Cell, makes awareness for social and Ethical issues among Girl students and staffs. All complaints related to



woman including sexual harassment are redressed by Woman Cell and gives suggestions to deal the case, if any.

MECHANISM:-

The Women Cell conducts gender sensitizing Programs by organizing lectures and seminars. Women Cell takes care of the concerns of the Girl students of the College and sensitizes students about women's rights. The Women Cell organizes programs on legal assistance, women's health and self-defense training which help in boosting the status of women. The women cell organizes various awareness programs on Gender equality, Women literacy, Beti Pado-Beti Bachao etc to discourage the sexual-imbalance in the society.

The Committee time to time visits in each departments and enquires girl students' problems. Complaints/grievances to the Girl students are regarded with utmost seriousness and take appropriate action. However, there is no sexual harassment case during last 05 years of the College.

The Women Cell has also created a WhatsApp Group in which all the Female Employees and Girl students are connected virtually.

The institute provides specialized women common room for its female students to insure their safety and hygiene.

C. Prohibition of Ragging among Students of the College

POLICY:-

Ragging is brought to bear for the purposes of dominant status of freshly enrolled students or students who are in any way considered junior or inferior by other students. The College has a well constituted Anti-Ragging Committee to strictly prohibited Ragging in any them within the premises of College as well as on public transport.



MECHANISM:-

Bishrampur College is consistently engaged in sensitization of students to our constitutional obligations, to make students as a good citizen.

The College includes individual or collective acts or practices against ragging such as:

- The Principal of the College or Anti-Ragging Committee shall take immediate action on any information of the occurrence of ragging.
- If the Principal of the College or Anti-Ragging Committee is satisfied that for some reason, shall direct or order rustication of a student or students for a specific number of period, admired to a programme of study in a College, departmental examination for one or more years or that the results of the student or students concerned in the examination or examinations in which they appeared be cancelled.
- However, there is no such case during last 05 years of the College. •



[Signature]
Principal
Govt. College Bishrampur
Distt.-Surajpur (C.G.)

[Signature]
1 GAC

GRIEVANCE REDRESSAL POLICY

The College has a Students' Grievance Redressal Committee. The functions of the Committee are to look into the complaints lodged by any student, and judge its merit. The Grievance Redressal Committee is also empowered to look into matters of harassment. Anyone with a genuine grievance may approach the Grievance Redressal Committee members in person. In case the person is unwilling to appear in self, grievances may be sent in writing. Grievances may also be sent through e-mail to the officer in-charge of Students' Grievance Redressal Committee or Principal.

Objective

- The objective of the Grievance Redressal Committee is to develop a responsive and accountable attitude among all the stakeholders in order to maintain a harmonious educational atmosphere in the institute.
- A Grievance Redressal Committee has been constituted for the redressal of the problems reported by the Students of the College with the following objectives:
- Upholding the dignity of the College by ensuring strike free atmosphere in the College through promoting cordial Student-Student relationship and Student-teacher relationship etc.
- Encouraging the Students to express their grievances / problems freely and frankly, without any fear of being victimized.
- Suggestion / complaint Box have been installed in front of the Administrative Block in which the Students, who want to remain anonymous, put in writing their grievances and their suggestions for improving the Academics / Administration in the College.
- Advising Students of the College to respect the right and dignity of one another and show utmost restraint and patience whenever any occasion of rift arises.
- Advising All the Students to refrain from inciting Students against other Students, teachers and College administration
- Advising all staffs to be affectionate to the Students and not behave in a vindictive manner towards any of them for any reason.

Responsibilities

- Provide an avenue for the aggrieved students to redress their individual grievances in order to have a healthy atmosphere among students, staff and management in the Institute.



- Discuss and resolve the grievances, if any received in writing from the concerned students.

Procedure

- The setting of the Grievance Redressal Committee for students will be widely published.
- The students may feel free to put up a grievance and drop it in boxes placed at conspicuous locations.
- The Grievance Redressal Committee will act upon those cases which have been forwarded along with the necessary documents.
- The Grievance Redressal Committee will take up only those matters which have not been solved by the different departments.
- Grievances related to fees etc. will be taken up only if the relevant financial documents like demand drafts etc. are attached.

In order to comply with the UGC Regulation for addressing Student's or Parent's grievance in the College, "Grievance Redressal Committee" of College has been constituted to enquire the nature and extent of grievance. The committee can suggest the final action to be initiated at the institutional level for the redressal of the same.

J. Kumar

[Signature]
Principal
Govt. College Bishrampur
Distt.-Surajpur(C.G.)



GOVT. COLLEGE BISHRAMPUR
DISTT.-SURAJPUR (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय बिश्रामपुर जिला-सूरजपुर(छ.ग.)

College Code - 3503 Telephone No. 07775296086

E-mail Id - gcbishrampur2016@gmail.com

Web Site - www.govtcollegebshrampur.ac.in

क्र०. 100 / स्था. / 2023

बिश्रामपुर, दिनांक

22 / 06 / 2023

ANTI-RAGGING DECLARATION

As an institution committed to maintaining a safe and healthy learning environment, Govt. College Bishrampur hereby declares and affirms its commitment to the prevention and prohibition of ragging, in accordance with the University Grants Commission (UGC) regulations 2009.

Strict Adherence: GCB shall strictly adhere to the UGC regulations on ragging and take all necessary measures to prevent any form of ragging within the institute's premises.

Awareness Campaigns: The institute will conduct regular awareness campaigns to educate students, faculty, and staff about the consequences of ragging and the importance of maintaining a respectful and inclusive atmosphere.


Anti-Ragging Committee: GCB will established an Anti-Ragging Committee every year to oversee the implementation of anti-ragging measures and promptly address any reported incidents.

Prompt Action: Any reported incident of ragging will be promptly and thoroughly investigated, and appropriate disciplinary action will be taken against those found guilty, in accordance with the UGC regulations and institute policies.

Orientation Programs: The institute will organize orientation programs for new students to sensitize them about the anti-ragging policy and foster a sense of camaraderie and mutual respect among the student community.

Zero Tolerance: GCB maintains a zero-tolerance policy towards ragging, and all members of the institute community are expected to contribute to creating a positive and welcoming environment for everyone.

By making this declaration, GCB affirms its unwavering commitment to ensuring a ragging-free campus and fostering an atmosphere conducive to learning and personal development.


प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय बिश्रामपुर
जिला-सूरजपुर(छ.ग.)

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय बिश्रामपुर जिला-सूरजपुर(छ0ग0)



College Code – 3503 Telephone No.07775296086

E-mail Id – gcbishrampur2016@gmail.com

Web Site - www.govtcollegebsihrampur.ac.in

GRIEVANCE REDRESSAL POLICY

Organisation wide awareness and undertaking on policies with zero tolerance to ragging inside/outside the campus.





Life
Principal
Govt.College Bishrampur
Distt.-Surajpur(C.G.)

“रैगिंग दंडनीय अपराध है ।”

1. कोई भी छात्र / छात्रा प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैगिंग में भाग नहीं लेगा ।
2. रैगिंग का अपराध संज्ञेय , अजमानतीय एवं अप्रशमनीय है ।
3. रैगिंग करने या रैगिंग के लिए दुष्प्रेरित करने पर कारावास या 5000 रुपये जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।
4. रैगिंग के अभियुक्त छात्र को निलंबित / संस्था में प्रवेश से वर्जित किया जा सकेगा ।
5. रैगिंग का दोषी छात्र संस्था से निष्कासन का स्वयं जिम्मेदार होगा ।
6. रैगिंग के अपराध में निष्कासित छात्र को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।






Principal
Govt. College Bishrampur
Dist. Surajpur (C.G.)

S.N.-125

Date 01/08/2022

GOVT. COLLEGE BISHRAMPUR
DIST -SURAJPUR (C. G.)



POLICY ON SEXUAL HARASSMENT

शासकीय महाविद्यालय बिश्रामपुर,
सुरजपुर (छ.ग.)

Internal Quality Assurance Cell (IQAC)



GOVT. College Bishrampur Dist -Surajpur (C. G.)

POLICY ON SEXUAL HARASSMENT

Preamble:

The Internal Complaint Committee of Govt. College Bishrampur is committed to provide a conducive environment, free from violence, harassment, and exploitation amongst the students, teaching & non-teaching staff on the college campus. This includes all forms of gender violence, sexual harassment against women. The Committee members are expected to render full assistance to the "aggrieved woman" in writing the complaint of Sexual Harassment, the members should also be aware of the responsibilities and duties under the UGC Regulations as well as under the Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013.

Formation of the Internal Complaint Committee:

The Internal Complaint Committee of the Govt. College Bishrampur is formed under Section 4 of University Grants Commission (Prevention, Prohibition and Redressal of Sexual Harassment of women employees and students in higher educational institution) Regulation, 2015 & under Section 4 of Sexual Harassment of Women at Workplace (Prohibition, Prevention & Redressal) Act, 2013.

Historical Background of the Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013:

The writ petition was filed before the Supreme Court expressing the lacuna in the legislative policy in the matters of Sexual Harassment of Women at Workplace as it violates Articles 14, 15, 19 & 21 of the Constitution of India. To fill the legislative gap, the Supreme Court laid down the following guidelines for the redressal of Sexual Harassment of Women at Workplace, the guidelines are also known as the "Vishaka Guidelines":

- i) Duty of the employer to prevent the sexual harassment of women at the workplace & to provide for the procedures for resolution and settlement.

- ii) The rules and regulations relating to conduct and discipline in any Government or Private enterprise should include rules and regulations relating to sexual harassment of women at the workplace.
- iii) Appropriate work conditions for women to ensure that there is no hostile environment for women at workplaces.
- iv) An appropriate Complaint Mechanism should be made for the victim to ensure time-bound redressal of the cases.
- v) The Head of the Complaint Committee should be a woman & more than half of the members should be women & to maintain impartiality, the Complaint Committee should involve a third party

In 2013, Parliament made legislation on Sexual Harassment named "Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013 (POSH Act). The Act was enacted with the basic objective of preventing and protecting sexual harassment at the workplace & to ensure redressal mechanism.

Declaration of the Policy:

Govt. College Bishrampur shall value the dignity of women & guarantee full respect for the "Fundamental Rights" under Article 14,15,19 & 21 of the Constitution of India. To achieve Gender Equality amongst the employees & students, all forms of sexual harassment in the employment, education, or training environment are declared as unlawful under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013 & UGC Regulations as well as under the Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013.

Objectives of the Policy:

- To fulfil the requirements of the Sexual Harassment of Women at Workplace At, 2013 (POSH Act).
- To ensure that the in-house Grievance Redressal Mechanism as mentioned under the Act is implemented to the full letter and spirit.
- To provide an environment free of gender discrimination.

- To assist the "Aggrieved Woman" to make the complaint relating to Sexual Harassment of Women at Workplace.
- To create a secure physical and social environment that will deter acts of sexual harassment

Definitions:

- **Aggrieved Woman:** Section 2 (a) of the Act mentions as:

"Aggrieved woman" means—

- (i) in relation to a workplace, a woman, of any age whether employed or not, who alleges to have been subjected to any act of sexual harassment by the respondent;
- (ii) (ii) in relation to a dwelling place or house, a woman of any age who is employed in such a dwelling place or house

- **Sexual Harassment:** Section 2(n) of the Act mentions as:

"Sexual Harassment" includes any one or more of the following unwelcome acts or behaviour (whether directly or by implication) namely:

- (i) physical contact and advances; or
- (ii) a demand or request for sexual Favors; or
- (iii) making sexually coloured remarks; or
- (iv) showing pornography; or
- (v) any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of sexual nature;

- **Workplace:** Section 2(o) of the Act mentions as:_____

- i) any department, organization, undertaking, establishment, enterprise, institution, office, branch, or unit which is established, owned, controlled, or wholly or substantially financed by funds provided directly or indirectly by the appropriate Government or the local authority or a government company or a corporation or a co-operative society;
- ii) any private sector organization or a private venture, undertaking, enterprise, institution, establishment, society, trust, non-governmental organization, unit or service provider carrying on commercial, professional, vocational, educational, entertainment, industrial, health

- services or financial activities including production, supply, sale, distribution or service;
- iii) hospitals or nursing homes;
 - iv) any sports institute, stadium, sports complex or competition or games venue, whether residential or not used for training, sports, or other activities relating thereto;
 - v) any place visited by the employee arising out of or during the course of employment including transportation by the employer for undertaking such journey;
 - vi) a dwelling place or a house;

Composition of the Committee:

- i) A Presiding Officer who shall be a woman employed at a senior level at the workplace from amongst the employees: Provided that in case a senior level woman employee is not available, the Presiding Officer shall be nominated from other offices or administrative units of the workplace
- ii) not less than two Members from amongst employees preferably committed to the cause of women or who have had experience in social work or have the legal knowledge
- iii) at least one-half of the total Members so nominated shall be women.
- iv) If the case involves against the student at the college, then two members of the Committee shall be taken from the student community.

Jurisdiction of the Committee:

The Rules and Regulations outlined in this policy shall be applicable to all the complaints relating to Sexual Harassment at Workplace: When one member (faculty or the student) has sexually harassed the other member within the educational institution.

Powers of the Committee:

- i) The Committee shall have the power to summon witnesses and call for documents or any information from any employee/student.
- ii) The Committee shall have the power to issue interim directions to any person participating in the proceedings before it.
- iii) The Committee before initiating an inquiry under the Act may undergo "Conciliation" under Section 10 of the Act if both the parties agree to it.

Procedure to be followed by the Committee:

- i) The Committee shall meet as and when any complaint is received by it. Complaints may be received by any member of the committee.
- ii) The Committee may direct the complainant to prepare and submit a detailed statement of incidents if the written complaint lacks exactness and required particulars, within a period of five (5) days from such direction, the Committee members shall assist in writing the complaint.
- iii) The Committee shall direct the accused employee(s)/student(s) to prepare and submit a written response to the complaint/allegations within a period of five (5) days from such direction or such other time period as the Committee may decide.
- iv) Each party shall be provided with a copy of the written statement(s) submitted by the other.
- v) The Committee shall allow both parties to produce relevant documents and witnesses to support their case. The Committee shall sit on a day-to-day basis to record and consider the evidence produced by both parties.
- vi) The Committee shall make all endeavours to complete its proceedings within a period of Ninety (90) days from the date of receipt of the complaint.
- vii) On the completion of an inquiry under this Act, the Internal Committee shall provide a report of its findings to the employer within a period of ten days (10) from the date of completion of the inquiry, and such report be made available to the concerned parties.
- viii) Where the Internal Committee arrives at the conclusion that the allegation against the respondent has been proved, it shall recommend to the Employer to act for sexual harassment as a misconduct in

accordance with the provisions of the Service Rules applicable to the respondent & he shall also be liable to pay to the victim, the compensation amount of as decided by the Committee, which shall be deducted from the salary or wages of the respondent.



Y. R. Singh
प्रधानाचार्य
शासकीय महाविद्यालय, विश्रामपुर
जिला-सुरजपुर (छ.ग.)

ज्ञानार्थ प्रवेश शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर,
सुरजपुर (छ.ग.) लेखार्थ प्रस्थान

Complaint and suggestion box



कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर जिला-सूरजपुर(छ0ग0)

आदेश

त्रि 2023-24 के लिए महाविद्यालय की विभिन्न समितियों निम्नानुसार गठित की जाती है।

प्रशिक्षित निधि/विकाश निधि समिति

- श्रीमती प्रियंका भगत (संयोजक)
- सुश्री मनीषा अंजली तिकी (सदस्य)
- श्री ज्ञानेश मुदगल (सदस्य)

यय समिति

- श्रीमती प्रियंका भगत (संयोजक)
- सुश्री मनीषा अंजली तिकी (सदस्य)
- श्री शैलेश कुमार सिंह (सदस्य)
- श्री शशी शेखर कुमार (सदस्य)
- श्री ज्ञानेश मुदगल (सदस्य)
- श्रीमती उमा (सदस्य)

नुशासन एवं एंटी रैगिंग समिति

- श्री शशी शेखर कुमार (संयोजक)
- श्री अंकुश सिंह सिसोदिया (सदस्य)
- सुश्री मनीषा अंजली तिकी (सदस्य)
- श्री निशांत मिंज (सदस्य)

पलेखन समिति

- श्रीमती प्रियंका भगत (संयोजक)
- सुश्री मनीषा अंजली तिकी (सदस्य)
- श्री शैलेश कुमार सिंह (सदस्य)

न्यालय/वाचनालय समिति

- श्री शैलेश कुमार सिंह (ग्रंथालय प्रभारी)
- श्रीमती उमा (सदस्य)
- श्री ज्ञानेश मुदगल (सदस्य)

जा./अ.ज.जा. अल्प संख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग

ल्याण समिति

- सुश्री प्रियंका भगत (संयोजक)
- श्रीमती उमा (सदस्य)
- सुश्री मनीषा अंजली तिकी (सदस्य)

कैरियर गाइडेन्स समिति

1. सुश्री मनीषा अंजली तिकी (संयोजक)
2. श्री शशी शेखर कुमार (सदस्य)
3. श्री ज्ञानेश मुदगल (सदस्य)
4. श्री शैलेश कुमार सिंह (सदस्य)

समय सारिणी समिति

1. सुश्री मनीषा अंजली तिकी (संयोजक)
2. श्री ज्ञानेश मुदगल (सदस्य)
3. श्री शशी शेखर कुमार (सदस्य)
4. श्रीमती उमा (सदस्य)

आंतरिक शिकायत एवं शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

1. श्रीमती प्रियंका भगत (संयोजक)
2. सुश्री मनीषा अंजली तिकी (सदस्य)
3. श्री ज्ञानेश मुदगल (सदस्य)

महिला उत्पीड़न/शिकायत निवारण समिति

1. सुश्री प्रियंका भगत (संयोजक)
2. सुश्री मनीषा अंजली तिकी (सदस्य)
3. श्रीमती मृदुलता शर्मा (सदस्य)

छात्रसंघ समिति

1. श्री शैलेश सिंह (प्रभारी)
2. शशी शेखर कुमार (सदस्य)
3. श्री अंकुश सिंह सिसोदिया (सदस्य)

युवा उत्सव एवं सांस्कृतिक समिति

1. श्रीमती उमा (संयोजक)
2. सुश्री प्रियंका भगत (सदस्य)
3. श्री शैलेश सिंह (सदस्य)
4. रजनी सिंह (सदस्य)
5. श्री निशांत मिंज (सदस्य)

छात्र सहायता निधि समिति

1. श्रीमती प्रियंका भगत (संयोजक)
2. श्रीमती उमा (सदस्य)
3. श्री ज्ञानेश मुदगल (सदस्य)

हित्यक समिति

- सुश्री प्रियंका भगत (संयोजक)
- श्री साकेत दूबे (सदस्य)
- श्री शैलेश सिंह (सदस्य)
- श्री ज्ञानेश मुदगल (सदस्य)

हायक जनसूचना अधिकारी एवं लोक सेवा गारंटी

- श्री डी. पी. कोरी (संयोजक)
- डॉ. शशी शेखर कुमार (सदस्य)

क एवं रुसा प्रभारी

- श्री शशी शेखर कुमार (नैक प्रभारी)
- ज्ञानेश मुदगल (रुसा प्रभारी)

श्री डी.पी. कोरी (फाईल) (IRAC)

क्रीडा विभाग

— सुश्री मनीषा अंजली तिकी

एन.एस.एस. विभाग


— श्रीमती प्रियंका भगत

परीक्षा विभाग

— श्रीमती उमा

Youth Red Cross

— श्रीमती उमा


प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर
जिला - सूरजपुर (छ0ग0)

शासकीय महाविद्यालय बिश्रामपमुर
अनुशासन एवं एंटी रैगिंग समिति

प्रमाणित किया जाता है कि इस रजिस्ट्रार में कुल 62
वेज हैं।

प्रमाणित
Principal
Govt. College Bishrampur
Distt.-Surajpur(C.G.)

आज दिनांक 23/02/2024 को अनुशासन एवं संहती रैगिंग समिति की बैठक प्राचार्य कक्ष में आयोजित की गई जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए।

- (1.) श्री डी. पी. कोरी (प्राचार्य)
- (2.) श्री शशी शेषर कुमार शिरोजक
- (3.) श्री अंकुश सिंह सिसोदिया (सदस्य)
- (4.) सुश्री मनीषा अंजली तिकी (सदस्य)

रजेंडा - रैगिंग कम करने एवं छात्र-छात्राओं को इससे संबंधित प्रावधान से अवगत कराना।

कार्यवाही विवरण -

- (1) महाविद्यालय में रैगिंग से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए छात्र-छात्राओं को संहती रैगिंग से संबंधित नियमों से अवगत कराना।
- (2) महाविद्यालय में संहती रैगिंग से संबंधित वाक्य को लिखवाना।
- (3) संहती रैगिंग से संबंधित नियम एवं संपूर्ण कार्यप्रणाली को महाविद्यालय में चरचा करना।
- (4) संहती रैगिंग संबंधित स्टीकर चिपकाना।
- (5) गवर्नर कौमन रूम में शिकायत/सुझाव पेटिका की व्यवस्था करना।



प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय विभ्रामपुर
जिला-सुरजपुर (छ.ग.)

शासकीय महाविद्यालय विश्रामपमुर
महिला उत्पीड़न/शिकायत निवारण
समिति

प्रमाणित किया जाता है कि इस रजिस्टर में
62 पेज हैं।

प्रति

Principal
Govt. College Bishrampur
Distt.-Surajpur(C.G.)

उत्पादन दिनांक 23-9-2023 को प्राचार्य कक्ष में महिला
उत्पीड़न शिकायत की बैठक आयोजित की गई जिसका
समय 2.00 Pm से 3.00 Pm का इस बैठक में निम्न
सदस्य उपस्थित रहे

प्राचार्य डी. पी. कोरी -

समिति प्रिंसेस भागवत -

मनीषा अंजली तिर्था -

मुकुलता शर्मा

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

एजेण्डा - छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुये
महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायतों पर
त्वरित कार्यवाही करना।

कार्यवाही - प्राचार्य महोदय ने महिला उत्पीड़न
संबंधी शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही
करने तथा ऐसी शिकायतों पर तुरंत
स्तरित करने कहा गया।


[Signature]


प्राचार्य


शासकीय महाविद्यालय बिशमपुर
जिला-सुरजपुर (छ.ग.)

Principal
Govt. B.S. College
(Bishampur)

डावाय दिनांक 20-2-2024 को महिला उत्पीड़न
शिकायत निवारण समिति की वेबक प्रार्थम कक्ष
में 2 PM माइत की गयी जिसमें निम्न सदस्य
उपस्थित हुये।

प्रार्थम - डी. पी. कोरी 

प्रियंका भात 

मनीषा अंबली सिधी 

सुदृष्टता शर्मा 

एजेण्डा - महिला उत्पीड़न शिकायत विषयक

कार्यवाही विवरण - संमोजक सीमती प्रियंका भात ने
वेबक में स्पष्ट किया कि महिला /
छात्राओं से संबंधित कोई भी शिकायत नहीं मिली
है।

प्रार्थम महोदय ने ठाहरवात कि मविम में महिला
छात्राओं से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होती
है तो तत्काल उसका निवारण किया जाएगा।

वेबक में विशाला गाइडवाइस के बारे में चर्चा किया
गया। साथ ही महिलाओं के कार्यक्षेत्र पर लैंगिक
उत्पीड़न से संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों
के निवारण तथा प्रतिरोध और उसके संबंधित या उसके
आनुवंशिक विषयों का उपबंध करने के लिये वने
आधिनियम पर चर्चा किया गया।

इस संबंध में छात्र-छात्राओं से पोस्टर
रखेगान बनाने पर चर्चा किया गया। महिलाओं का
कार्यक्षेत्र पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण और प्रतिरोध और
प्रतिरोध) आधिनियम 2013 पर आगे सत्र के आरंभ में
सेमिनार आयोजित करने का निर्णय लिया गया।



प्रार्थम

शासकीय महाविद्यालय बिशमपुर
जिला-सुरजपुर (उ.प्र.)

शासकीय महाविद्यालय बिश्रामपमुर
आंतरिक शिकायत एवं शिकायत
निवारण प्रकोष्ठ

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर जिला-सूरजपुर(छ0ग0)

आदेश

2023-24 के लिए महाविद्यालय की विभिन्न समितियों निम्नानुसार गठित की जाती है।

प्रत निधि/विकास निधि समिति	कैरियर गाइडेन्स समिति
श्रीमती प्रियंका भगत (संयोजक)	1. सुश्री मनीषा अंजली तिकी (संयोजक)
सुश्री मनीषा अंजली तिकी (सदस्य)	2. श्री शशी शेखर कुमार (सदस्य)
श्री ज्ञानेश मुदगल (सदस्य)	3. श्री ज्ञानेश मुदगल (सदस्य)
समिति	4. श्री शैलेश कुमार सिंह (सदस्य)
श्रीमती प्रियंका भगत (संयोजक)	समय सारिणी समिति
सुश्री मनीषा अंजली तिकी (सदस्य)	1. सुश्री मनीषा अंजली तिकी (संयोजक)
श्री शैलेश कुमार सिंह (सदस्य)	2. श्री ज्ञानेश मुदगल (सदस्य)
श्री शशी शेखर कुमार (सदस्य)	3. श्री शशी शेखर कुमार (सदस्य)
श्री ज्ञानेश मुदगल (सदस्य)	4. श्रीमती उमा (सदस्य)
श्रीमती उमा (सदस्य)	
शासन एवं एंटी रैगिंग समिति	आंतरिक शिकायत एवं शिकायत निवारण प्रकोष्ठ
श्री शशी शेखर कुमार (संयोजक)	✓ श्रीमती प्रियंका भगत (संयोजक)
श्री अंकुश सिंह सिसोदिया (सदस्य)	2. सुश्री मनीषा अंजली तिकी (सदस्य)
सुश्री मनीषा अंजली तिकी (सदस्य)	3. श्री ज्ञानेश मुदगल (सदस्य)
श्री निशांत मिंज (सदस्य)	
लेखन समिति	महिला उत्पीड़न/शिकायत निवारण समिति
श्रीमती प्रियंका भगत (संयोजक)	✓ 1. सुश्री प्रियंका भगत (संयोजक)
सुश्री मनीषा अंजली तिकी (सदस्य)	2. सुश्री मनीषा अंजली तिकी (सदस्य)
श्री शैलेश कुमार सिंह (सदस्य)	3. श्रीमती मृदुलता शर्मा (सदस्य)
थालय/वाचनालय समिति	छात्रसंघ समिति
श्री शैलेश कुमार सिंह (ग्रंथालय प्रभारी)	1. श्री शैलेश सिंह (प्रभारी)
श्रीमती उमा (सदस्य)	2. शशी शेखर कुमार (सदस्य)
श्री ज्ञानेश मुदगल (सदस्य)	3. श्री अंकुश सिंह सिसोदिया (सदस्य)
जा./अ.ज.जा. अल्प संख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	युवा उत्सव एवं सांस्कृतिक समिति
व्यापन समिति	1. श्रीमती उमा (संयोजक)
✓ सुश्री प्रियंका भगत (संयोजक)	2. सुश्री प्रियंका भगत (सदस्य)
श्रीमती उमा (सदस्य)	3. श्री शैलेश सिंह (सदस्य)
सुश्री मनीषा अंजली तिकी (सदस्य)	4. रजनी सिंह (सदस्य)
	5. श्री निशांत मिंज (सदस्य)
हित्यक समिति	छात्र सहायता निधि समिति
✓ सुश्री प्रियंका भगत (संयोजक)	✓ 1. श्रीमती प्रियंका भगत (संयोजक)
श्री साकेत दूबे (सदस्य)	2. श्रीमती उमा (सदस्य)
श्री शैलेश सिंह (सदस्य)	3. श्री ज्ञानेश मुदगल (सदस्य)
श्री ज्ञानेश मुदगल (सदस्य)	
नयक जनसूचना अधिकारी एवं लोक सेवा गारंटी	क्रीडा विभाग - सुश्री मनीषा अंजली तिकी
श्री डी. पी. कोरी (संयोजक)	एन.एस.एस. विभाग - श्रीमती प्रियंका भगत
डॉ. शशी शेखर कुमार (सदस्य)	परीक्षा विभाग - श्रीमती उमा
एवं रूसा प्रभारी	Youth Red Cross - श्रीमती उमा
श्री शशी शेखर कुमार (नैक प्रभारी)	
ज्ञानेश मुदगल (रूसा प्रभारी)	
श्री डी.पी. कोरी (पफ.ई.) (IRAC)	

J.P. Kori
प्राचार्य

शासकीय महाविद्यालय विश्रामपुर
जिला - सूरजपुर (छ0ग0)

उपरोक्त दिनांक 13-2-2024 को उपाचारिक शिक्षण एवं निवारण समिति की बैठक प्राचार्य कक्षा में हुई। इसमें उपस्थित रहे। निम्न लक्ष्य उपस्थित हुए।

1. प्रो. डी. पी. कोरी प्राचार्य
2. सीमती प्रियंका भागत संयोजक -
3. मनीषा अग्रणी निरीक्षिका -
4. रानेश मुद्गल - ज्ञानेश मुद्गल

लक्ष्य - प्रातः आवेदन पत्रों पर विचार एवं निवारण करने संबंधी विधायक।

कार्यवाही विवरण - बैठक में प्राचार्य डी. पी. कोरी ने संयोजक द्वारा प्रस्तुत गमा गई उपाचारिक शिक्षण संबंधी कार्य में आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिसका त्वरित निष्पत्ति निराकरण किया जा रहा है। प्राचार्य महोदय ने आश्वासन दिया कि मरिचक में यदि कोई शिक्षण आती है तो तत्काल निराकरण किया जाएगा।

द्वारा राधिका मासिकपुरी B. Sc. Ist year द्वारा विद्यार्थियों की सुरक्षा हेतु सी. पी. टी. वी. के द्वारा खगवाने हेतु आवेदन किया गया था जिसका निष्पत्ति किया गया।

महाविद्यालयीन छात्र/छात्राओं को छात्र/छात्राओं के द्वारा सफाई किल्ला हेतु आवेदन किया गया था जिसका निराकरण किया गया।

[Signature]
प्राचार्य

शारदीय महाविद्यालय विश्रामपुर
जिला-सुरजपुर (उ.प्र.)